



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 35

पटना, बुधवार,

6 भाद्र 1946 (श०)

28 अगस्त 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-06
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त 2024

एस०ओ० 429 दिनांक 28 अगस्त 2024—बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के भंग होने के पश्चात् बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम-07/2024) की धारा 3 की उपधारा (7ख)(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आयोग के पुनःसंरचना एवं पुर्नगठन पर अध्ययन एवं अनुशंसा हेतु 05 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति निम्नवत् गठित की जाती है:—

1. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
 2. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग
 3. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग
 4. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग
 5. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
2. समिति द्वारा अनुशंसाएँ उसके गठन की तिथि से 01 माह की अवधि में राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

(सं० 1/CLC-10-04/2024, श्र०सं०-4468)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

28 अगस्त 2024

सं० 1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 श्र०सं०-55—श्री गणेश कुमार झा, सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, मुंगेर (अतिरिक्त प्रभार— सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, बेगूसराय) को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक उप निबंधक (श्रमिक संघ), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

27 अगस्त 2024

सं० 1/श्रम वि०स्था०(1)10-19/2019 श्र०सं०-54—श्री सुजित कुमार, श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, डालमियानगर (रोहतास) को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

22 अगस्त 2024

सं०सं० 1/क०रा०बी०यो०-06/2017 श्र०सं०-53—स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं० 1031(2) दिनांक 31.07.2024 द्वारा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संविदा नियोजन हेतु डॉ० ब्रजनन्दन प्रसाद की सेवा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये जाने के आलोक में उनके द्वारा दिनांक 14.08.2024 को समर्पित योगदान को स्वीकृत एवं उन्हें संविदा के आधार पर बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियोजित करते हुए उनके नाम से सामने स्तंभ-03 में अंकित पद पर पदस्थापित एवं स्तंभ-04 में अंकित पद/कार्यालय (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :—

क्र०	पदाधिकारी का नाम	नव पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार
1.	2	3.	4.
01.	डॉ० ब्रजनन्दन प्रसाद, सेवानिवृत्त बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कंकड़बाग, पटना	(i) निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना। (ii) क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, पटना। (iii) क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। (iv) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमालरोड़ (श्रीकृष्णनगर), पटना। (v) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पटना सिटी, पटना। (vi) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना। (vii) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, गया। (viii) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बंजारी (रोहतास)। (ix) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहारशरीफ, नालंदा। (x) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुंगेर। (xi) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, समस्तीपुर। (xii) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कटिहार। (xiii) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाथिदह। (xiv) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर। (xv) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाजीपुर। (xvi) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, भागलपुर।

2. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं० 1031(2) दिनांक 31.07.2024 में निहित शर्त के अनुरूप इन्हें सभी लाभ देय होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

20 अगस्त 2024

सं० R-504/292/2023-SECTION 14-RDD-RDD (पार्ट-2)—3098933—श्री रंजीत कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण के विरुद्ध सारण जिला अंतर्गत पंचायत उप चुनाव 2023 के लिए आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में मांझी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य के एक रिक्त पद पर उप चुनाव कराया जाना था,

किन्तु इनके द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य के दो पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने संबंधी आरोपों पर जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-105 मु0 दिनांक-15.07.2023 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र भेजा गया।

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

तत्संबंध में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी के ज्ञापांक-578 दिनांक-21.03.2023 द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय में विहित प्रपत्र-1(क) में रिक्ति की सूचना संसूचित की गयी। चुनाव में रिक्त पदों से संबंधित प्रपत्र-5 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)-सह-जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा दिनांक-02.05.2023 को प्रकाशित करने के उपरांत इनके द्वारा निर्वाचन प्रारम्भ किया गया जिसमें ग्राम पंचायत राज नसीरा एवं जैतपुर के भी ग्राम पंचायत सदस्य का पद शामिल था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित रिक्ति एवं जिला पंचायत कार्यालय, सारण, छपरा के द्वारा वर्णित रिक्ति में भिन्नता की सूचना प्रखंड कार्यालय को नहीं दी गयी।

जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त आरोप पत्र, उक्त आरोपों पर श्री सिंह के स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)-सह-जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा चुनाव में रिक्त पदों से संबंधित प्रपत्र-5 दिनांक-02.05.2023 को प्रकाशित किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला स्तर से ससमय हस्तक्षेप करते हुए त्रुटिरहित निर्वाचन सम्पन्न कराया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री रंजीत कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण को चेतावनी सहित निर्वाचन कार्य में लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं करने के शर्तों पर इनके स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है।

उक्त आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।**

20 अगस्त 2024

सं0 R-504/292/2023-SECTION 14-RDD-RDD (पार्ट-1)—3098971—श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा, सारण सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर, वैशाली के विरुद्ध सारण जिला अंतर्गत पंचायत उप चुनाव 2023 के लिए आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में परसा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मांडर के वार्ड सदस्य के एक रिक्त पद का अनुमोदन प्राप्त नहीं था, किन्तु इनके द्वारा उक्त रिक्त पद भी निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने संबंधी आरोपों पर जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-105 मु0 दिनांक-15.07.2023 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र भेजा गया।

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

तत्संबंध में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा के ज्ञापांक-392 दिनांक-25.03.2023 द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय में विहित प्रपत्र-1(क) में रिक्ति की सूचना संसूचित की गयी। चुनाव में रिक्त पदों से संबंधित प्रपत्र-5 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)-सह-जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रकाशित करने के उपरांत इनके द्वारा निर्वाचन प्रारम्भ किया गया जिसमें ग्राम पंचायत राज मांडर के वार्ड सदस्य का पद शामिल था।

जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त आरोप पत्र, उक्त आरोपों पर श्री सिंह के स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला

निर्वाचन पदाधिकारी (पं०)-सह-जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा चुनाव में रिक्त पदों से संबंधित प्रपत्र-5 प्रकाशित किया गया था। पदों की संख्या की गणना सही ढंग से नहीं होने कारण उक्त त्रुटि उत्पन्न हुई जिसे बाद में सुधार किया गया एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी निराकरण का सुझाव देकर निर्वाचन का सफल संचालन कराया लिया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा, सारण सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर, वैशाली का उक्त भूल के लिए चेतावनी सहित स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है।

उक्त आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भानु प्रकाश, अपर सचिव।

21 अगस्त 2024

सं०सं० गा०वि०-14(म०)और०-01/2018-3102492—श्री अशोक प्रसाद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर (औरंगाबाद) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर (पटना) के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं कराये जाने पर जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-164/वि० दिनांक-02.09.2023 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त आरोप पत्र पर श्री अशोक प्रसाद द्वारा दिनांक-06.05.2024 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त योजना में गड़बड़ी के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर (औरंगाबाद) के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, वार्ड संख्या-05 के वार्ड सदस्य एवं सचिव तथा मे० मनोज इन्टरप्राइजेज, सासाराम के प्रोपराईटर के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अधूरे कार्य को पूर्ण कराया गया। संबंधित स्पष्टीकरण में साक्ष्य सहित स्वीकारोक्ति भी है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी परंतु उनके द्वारा प्रखंड अन्तर्गत संचालित उक्त योजना का अनुश्रवण किया जाना चाहिए था।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अशोक प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर (औरंगाबाद) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर (पटना) को भविष्य के लिये सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि कुमार, उप सचिव।

21 अगस्त 2024

सं०सं० R-504/50/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-264866)—3104055—श्रीमती रचना भारतीय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट (सहरसा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना (सुपौल) के विरुद्ध सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड के धबौली पूर्वी पंचायत के मुखिया पद का निर्वाचन के क्रम में धबौली पूर्वी

पंचायत हेतु अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में 183 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-20-1/वि० दिनांक-06.03.2024 द्वारा आरोप प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-I/131653/2024 दिनांक-14.05.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्रखंड कार्यालय, मरौना (सुपौल) के पत्रांक-739 दिनांक-28.05.2024 द्वारा श्रीमती भारतीय का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती भारतीय के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्रीमती भारतीय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अवगत कराया गया कि ससमय मतदाता सूची का त्रुटि निराकरण करते हुये पंचायत उप निर्वाचन-2023 को सफलतापूर्वक बिना किसी अन्य रूकावट के निष्पादित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, सहरसा ने उक्त त्रुटि पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध राज्य निर्वाचन आयोग से किया है। उप निर्वाचन-2023 बिना चूक एवं त्रुटि के ही निष्पादित किया जा चुका और कोई क्षति नहीं होने की सूचना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती रचना भारतीय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट (सहरसा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना (सुपौल) के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

उक्त आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि कुमार, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>